

April 29, 2023

Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited.
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400051

Listing Compliance Department
BSE Limited.
Phirozee Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

NSE Symbol: ESSENTIA

Scrip Code: 535958

Sub: Newspaper Advertisement of Audited Financial Results for the Quarter and Financial year ended March 31, 2023

Dear Sir/ Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial year ended March 31, 2023, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated April 29, 2023 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you, Yours Faithfully,

for Integra Essentia Limited

(formerly Integra Garments & Textiles Limited)

Vishesh Gupta Managing Director DIN: 00255689

FINANCIAL EXPRESS



HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015.

Regional Office: F-8, Mahalaxmi Metro Tower, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad-201010 Contact No.: 9870303707, Authorized Officer: Ashutosh Kumar, Email:ashutosh.kumar@hindujahousingfinance.com

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Co-Borrower(s) that pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, to be sold on, as 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis', Particulars of which are given below:-

Date & Time of Auction: 09-06-2023 from 11:00 hrs. to 14:00 hrs.

Sr. No.	Guarantor(s)	and Amount	property	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP)
	(Loan Account No. UP/NCU/GHAU/A000000141) 1. Mr. Ashok, Plot No. 42, Khasra No. 522, situated Colony Shanu Vihar, Vill-Loni Pargana Loni, Tehsil and District Ghaziabad-UP. Also at: House No. 42, Sanu Vihar, Vill-Loni Pargana, Ghaziabad-201102 2. Poonam, House No. 1, Ansar Vihar, Loni	07.11.2020 Rs. 24,55,492/- (Rupees Twenty-Five Lakhs Fifty-Five Thousand Four Hundred and Ninety Two Only) as on	area measuring 185 sq. yds. i.e. 154.68 sq. mts. Sonu Vihar, Loni, Ghaziabad, Bounded as : North -	₹ 30,47,731/- ₹ 3,04,773.1/-

- AM to 4:00 PM. at the Regional Office F-8, Mahalaxmi Metro Tower, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad-201010. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall
- Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 09.06.2023 at the above-mentioned regional office address at 11:00 AM. The tender will be opened in the presence of the Authorized Officer.
- Date of Inspection of the Immovable Property is on 05.06.2023 between 11:00 AM to 5:00 PM.
- Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.
- The notice is hereby given to the Borrower/s and Co-Borrower/s to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms
- The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above-mentioned Regional office.
- The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the Authorized Officer reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary. The Property as mentioned will not be sold below Reserve Price.
- HHFL (HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED) is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis'. The Total Loan Outstanding amount is not the loan foreclosure amount. All other charges (if any) shall be calculated at the time of

Quarter Ended

31-Mar-23 31-Dec-22 31-Mar-22

6,203.47

5,992.21

211.26

12.55

223.81

223.81

223.81

223.81

223.81

0.05

Audited Unaudited

6,809.67

6,571.95

237.72

(5.50)

(17.53)

225.69

57.03

168.66

168.66

168.66

0.04

- The Demand Draft should be made in favor of "HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED" payable at Ghaziabad.
- For further details, contact the Authorized Officer, at the abovementioned Office address.

Dated: 28-04-2023, Place: New Delhi Mr. Ashutosh Kumar, Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Consolidated Figures

Audited

5.018.65

4,964.30

54.35

54.35

0.01

54.34

54.34

54.34

54.34

0.05

INTEGRA ESSENTIA LIMITED

(Formerly known as Integra Garments & Textiles Limited) CIN: L74110DL2007PLC396238

REGD OFF: 902, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash Place, New Delhi, North West, Delhi,-110034, India

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

Year

Ended

31-Mar-23

Audited

24,550.15

23,832.65

717.50

6.20

723.70

57.03

666.67

666.67

666.67

666.67

0.15

The Consolidated financial results of the company have been prepared in accordance with Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 (the

The above Audited Financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting at

the corporate office held on April 27, 2023. The Statutory Auditor of the Company has carried out an audit of the above Financial Results of the Company for the

quarter and financial year ended March 31, 2023 in term of the Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and have issued an unmodified Independent

Act) read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Year

Ended

Audited

6,860.82

6,751.98

108.84

108.83

108.83

108.83

108.83

0.10

0.01

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - II. DELHI 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi - 110001

Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institutions Act 1993 the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest (Act, 2002)54 read with rule 12 & 13 of the Debts Recovery of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with [rule 3] of the security interest Tribunal (Procedure Rule) 1993 in the matter of Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices to the Borrower/s as details herein under, calling upon the respective Borrowers to repay the amount mentioned in the notice with all costs, charges and expenses till PUBLICATION NOTICE actual date of payment within 60 days from the date of the receipt of the said notice. The said Borrower/Co-borrower/Guaranton/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to OA No. 181/2022 Date: 25.04.2023 the borrower//Co-borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken Physical

Deutsche Bank AG (Applicant) VS

Mr. Gul Mohd. Prop.: M/s R M Manufactures (Respondent)

Reserve Price (RP)

DEFENDANT Mr. Gul Mohd. Prop. M/s R M Manufactures,

Sect-3, Plot No. J-236, Pkt. N Industrial Area.

Bawana, Delhi - 39. Also at: House No. 152,

Street No. 5, Shastri Park, Seelampur, Delhi -Whereas the above named applicant(s) has have instituted a case for recovery of Rs. 22,51,543.34/- (Rupee Twenty Two Lakh Fifty One Thousand Five Hundred Forty Three and paisa Thirty Four Only) against you and where as it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that, it is not possible to serve you in the ordinary

on 20.07.2023 At 10:30 A.M. Take Notice that in default of your appearance on the day before the mentioned, the case will be heard and

way therefore, this notice is given by advertisement

directing you to make appearance in the Tribunal

determined in your absence. All the matters will be taken up through video Conferencing and for that purpose:-(i) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex"

application/software: (ii) "Meeting ID" and Password for the date of hearing qua cases to be taken by Hon'ble Presiding Officer/ Registrar shall be displayed in the daily cause list itself at DRT Official Portal i.e. drt.gov.in

(iii) In any exigency qua that the Advocate/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 23748478. Given under my hand and seal of the Tribunal

this the 25th day of April 2023

FIGURES IN LAKHS EXCEPT SHARE DATA

Year

Ended

Audited

24,550.15

23,832.65

717.50

717.50

57.03

660.48

660.48

660.48

4,570.33

0.14

Year

Ended

31-Mar-22

Audited

6,860.82

6,751.98

108.84

108.84

108.83

108.83

108.83

1,089.97

0.10

0.01

Standalone Figures

Audited

5,018.65

4,964.30

54.35

54.35

0.01

54.34

54.34

54.34

0.05

1,089.97

Quarter Ended

31-Mar-22 31-Mar-23 31-Dec-22 31-Mar-22 31-Mar-23

6,203,47

5,992.21

211.26

211.26

211.26

211.26

211.26

4,570.33

Reserve Price (RP)

0.05

Audited Unaudited

6,809.67

6,571.95

237.72

-5.50

243.22

57.03

186.20

186.20

186.20

4,570.33

0.04

By Order of the Tribunal Assistant Registrar, DRT-II, DELHI.

Section 13(2) and Amount claimed there under and Date of Possession is given as under:

LAN. No. LXGHZ02919-200004712

Loan agreement Date: 29-April-2019

Loan Amount: Rs.10,00,000/-

Name of Corporate Debtor

deal with the property and dealings with theproperty will be subject to the charge of the UMMEED HOUSING FINANCE PVT, LTD. For the amount specified therein with further interest, costs and Chagares from espective dates thereon until full payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time svailable, to redeem the secured assets Details of the Borrowers, Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under

Ummeed Housing Finance Pvt. Ltd

Registered & Corporate office at : Unit 809-815, 8th Floor, Tower-A, EMAAR Digital Greens, Golf

Course Extension Road, Sector-61, Gurugram -122002 (Haryana) CIN:U65922HR2016PTC057984.

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESION NOTICE

possession of the property described herein below in exercise the powers conferred on him under sub-section (4) of

The Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to

section 13 of the said act read with rule 8 of the security interest Enforcement Rules, 2002 on this date.

Sr. Name and Address of the Borrower, Co Borrower No. Guarantor Loan Account No. Demand Amount Due Details of the Secured Notice: in Rs Date And Loan Amount All that part and parcel of Usha Devi W/o Rajnath Sonkar 10-Feb-Rs.720,805.00/-Property of Residential Plot 2023 (Borrower) (Rupees Seven Rajnath Sonkar S/o Chandra Measuring Area 100 Sq.yds Lakhs Twenty Or 83.61 Sq.mtrs. Comprised Shekhar Sonkar (Co-borrower) Thousand Eight in Khasra No.79, Situated at Both above Residing at: R-C 100, Hundred Five Village Jal Pura, Pargana & Deepak Vihar, Khora Colony, Khora, Only) With Tehsil Dadri, District- Gautam Ghaziabad-201309 further interest

of Seller Place: Gurugram, Haryana Date: 29.04.2023 Authorised Officer (Mr. Gauray Tripath Ummeed Housing Finance Pvt.Ltd,, Mobile-9811329550

Buddh Nagar. Boundaries:-

East - Rasta 16' Ft., West -

Khet Parimaal, North - Plot

Maharchand, South - Rest Plot

from the date of

11 Feb 2023.

25-April

SATNAM GLOBAL INFRAPROJECTS LIMITED

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SATNAM GLOBAL INFRAPROJECTS LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

2	2. Date of incorporation of Corporate Debtor		09/02/1987		
3.	 Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered 		ROC-Delhi		
4.			U74899DL1987PLC026940		
5.	registered office and principal office (if any) Address other the Rajasthan-324003		272, FIE Industrial Area, Patparganj Delhi-110092 in Regd. Office: 1. F -54, Chambal Industrial Area, Kota, 2. B-93, MIDC, Butibori Industrial Area, Nagpur 22 3. A-4, Sector - 57, Noida, U. P 201301		
6.	Insolvency commencer respect of Corporate D		26th April, 2023 (Order received on 27th April, 2023)		
7.			23rd October, 2023		
8.			Rajneesh Kumar Aggarwal Reg. No.:IBBI/IPA-001/IP-P00886/2017-2018/11483 AFA Valid Upto: 27-Nov-23		
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board		Address: C-60, 3rd Floor, C-Block Community Centre, Janak Cinema Complex, Janak Puri, New Delhi-110058 E-mail: ca@arkadvisors.in		
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional		Address: C-60, 3rd Floor, C-Block Community Centre, Janak Cinema Complex, Janak Puri, New Delhi-110058 E-mail: ip.satnam@gmail.com		
11.	Last date for submission of claims		10th May 2023		
12.	 Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional 		Not Applicable		
13.	 Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class) 		Not Applicable		
14.	(a) Relevant forms and	i	(a) Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads		

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench (Court-VI) has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Satnam Global Infraprojects

The creditors of Satnam Global Infraprojects Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 10th May 2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA - Not Applicable. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00886/2017-2018/11483 Address: C-60, 3rd Floor, C-Block Community Centre, Janak Cinema Complex Janak Puri, New Delhi-110058 Email: ca@arkadvisors.in

Regd. Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Phone: 011 49267000, Toll Free Number: 1800 212 8800, Email: customer.care@herohfl.com Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148 Contact Address: Building No. 27, 2nd Floor, Community Center, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi- 110057.

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Hero Housing Finance Limited (HHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to HHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amounts indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HHFL by the said Obligor(s) respectively.

Loan Account	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice Date of NPA	
No.	Representative(s	as on below date*		
HHFDELHOU19000001723	AFSAR ALI,	Rs. 10,60,841/- as	26-Apr-2023	
1 SANCE PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PARTICIPATION OF THE PARTIC	SHAMEEM BANO	on 18-Apr-2023	09-Apr-2023	
Description of the Secured	Accate Ilmmercable Drong	ortice! Mortagged Pron	arting: Elect Floor	

without roof rights area measuring 66 sq. Yards. I.e 55.18 sq. Mtrs built on plot no. A-4, Khasra No. 151 B, situated at Sai Upwan Village Yusufpur, Chaksavari Pargana & Tehsil- Dadri, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh consisting of two bedroom, one drawing room, one kitchen, two toiletbathroom and balcony. North East: Plot No. A-3, North West: Road 28ft, South East: Society Wall South West Plot No. A-5

HHFNSPHOU21000018166	KAILASH CHAND	Rs. 16,96,857/- as	25-Apr-2023
	SHARMA, PRABHA	on 18-Apr-2023	06-Apr-2023
Description of the Secured A 04, M.I.G. on Second Floor wit two-bedroom, two toilet, one ki sq. Mtrs built-on residential Plo Pargana & Tehsil Loni, District South: Road 9 mtr, West: Plot N	th roof right (LHS Back Sid tichen and one balcony, co at No. D-8/9, situated at D Ghaziabad. U.P-201102.	de), consisting of one dra- overed area measuring 50 L.F Ankur Vihar, in the an	wing/dining room, 10 sq. Ft i. E 46.45 ea of Village Loni,
			AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF

HHFNOIHOU22000024249 RAJ KAWAL, GEETA Rs. 16,36,093/- as 25-Apr-2023 on 18-Apr-2023 06-Apr-2023 Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties: Residential Flat No.-sf-3, Second Floor, Rear RHS, with roof rights, area admeasuring 493 sq ft. I.e 45.79 sq mtr., built-up on Plot No. A-139, out of Khasra No. 347, situated at Residential Colony Rail Vihar, in the Village Sadullabad, Pargana & Tehsil Loni, Distt. Ghaziabad, U.p.-201102. North: Road 30 Ft. Wide, East: Other's Property, South: Plot No. 132, West: Plot No. A-138, A-137 & A-136 HHFNSPHOU19000005915 SAURABH KUMAR. Rs. 14,87,977/- as 25-Apr-2023 ABHIJEET KUMAR

on 18-Apr-2023 Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties: Residential Flat No.-FF-2 & 3, First Floor, MIG without roof rights, consisting of two bedrooms, one drawing room, one kitchen, one bathroom and a balcony, having area admeasuring 65 sq yds. I.e 54.34 Sq Mtr., Built-up on Plot No. B-61, Out Of Khasra No. 237, Situated in The Village Sadullabad, Pargana & Tehsil Loni, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201102. North: Road 25 ft. Wide, East: Other's Property, South: Other's Property, West: Road 25 ft, wide

HHFNSPLAP21000019372 &		Rs. 24,47,561/- as	26-Apr-2023
HHFNSPLAP22000019730	NISHA GIRI	on 18-Apr-2023	06-Apr-2023
Description of the Secured A and parcels of residential plot to Floor-2, Khasra No. 19/25 situa Nagar, New Delhi-110059. DDA/GIS/05062020010935/71	earing no13-A, Blo ted in an unauthorize Regn No. 1215.	ck-È, area measuring 31.77 d colony of Vikas Nagar, Villa GIS ID No. of Geo-	28 sq. Mts., having age-Hastsal, Uttam Coordinates File

of Plot, North: Road 22.5 FT, South: Portion of Plot SIDHARTH SON OF BHAGMAL, Rs. 8.25.834/- as KRISHANA WIFE OF BHAGMAL 21000013850 on 18-Apr-2023 06-Apr-2023 Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties: Residential Flat No. UGF-03. Upper Ground Floor Rear Side without Roof Right, Built-on Plot No. A-2, out of Khasra No. 211, area admeasuring 306 sq. Ft. I.e 28.43 sq. Mtrs., situated at Rail Vihar Awas Samiti Limited, Village Sadullabad, Pargana & Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201102.

Boundaries of Plot No. A-2, North: Road 40 Ft. Wide, East: Plot No. A-3, South: Plot NO. A-171, West: Plot No. A-1 ROHIT NAGPAL, KAMLESH Rs. 85.37,824/- as HHFLAXHOU 27-Apr-2023 WIFE OF RAM KUMAR NAGPAL 22000024911 on 17-Apr-2023 07-Apr-2023 Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties: Entire Second Floor without roof rights, property bearing no. 95, measuring 175 sq. Yds. Block - D, Sector -

East Plot No. 96, South: Road, West Plot No. 94 "with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notice date mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to HHFL as aforesaid. then HHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal

8, Dwarka Residential Scheme Dwarka, New Delhi - 110075 with common rights to use the lift and

use ¼ undivided share in the parking area of stilt/ground floor. Bounded by: North: Plot No. 108.

The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Heir(s)/Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

Date: 29-April-2023 Sd/- Authorised Officer. Place: Delhi/NCR For Hero Housing Finance Limited

Details of

Branch Address

For Integra Essentia Limited

by Order of Board

DIN: 00255689

Vishesh Gupta Managing Director

Place: Delhi Date: April 27, 2023

No.

1 Total Income (1)

and Tax (1-2)

Exceptional Items

Total Expenses (2)

Particulars

Profit Before Exceptional Items

Share in Profit (Loss) in Associate

Entity accounted for Using Equity

Profit/ (Loss) Before Tax (5-6+7)

Total Comprehensive Income for

Profit/(Loss) from continuing

Profit/(Loss) for the period

Paid up equity share capital

(Face value of the share)

Total Tax Expense (i+ii)

operations (8-9)

the period (14+15)

13 Earnings per Equity Share

(10+13)

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED th Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015. HINDUIA

Regional Office: F-8, Mahalaxmi Metro Tower, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad-201010 Contact No.: 9870303707, Authorized Officer: Ashutosh Kumar, Email:ashutosh.kumar@hindujahousingfinance.com

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Co-Borrower(s) that pursuant to taking possession

of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, to be sold on, as 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis', Particulars of which are given below:-Date & Time of Auction: 09-06-2023 from 11:00 hrs. to 14:00 hrs.

Borrower(s) / Co-Borrower(s)/ Description of the Immovable Demand Notice Date

No.		and Amount	property	Deposit (EMD) (10% of RP)
1	(Loan Account No. DL/NCU/GHAU/A000000161) 1. Mrs. Nirmal Rani, 8-272/2, Block-B, Ground Floor, Bhajanpura, Near Little Champ Public School, East Delhi, East Delhi, Near Little Champ Public School, Metro, Bhajanpura, Delhi, India – 110096, Also at: Gali No. 14, Bhajanpura, C-322, East Delhi, Near PNB Bank, Bhajanpura, Delhi - 110053 2. Mr. Anand, Gali No. 14 Bhajanpura, C 322, East Delhi – 110053	Demand Notice date: 28.09.2020 Rs. 34,87,666/- (Rs Thirty Four Lac Eighty Seven thousand Six Hundred and Sixty Six only) as on 30.08.2020	sq. yds. i.e., 83.61 sq. mts. Out of Khasra No. 316, part of property	₹ 28,00,000/-
2	(Loan Account No. UP/NCU/GHAU/A000000244) 1. Mr. Amarjit Kumar, Khasra No. 353 C 529 First Floor Gali 25, Bhajanpura, Delhi – 110053 Also at: B-102, Sangam Bihar, Maharishi Garden - 201001 2. Rajni, B-102, Sangam Park, Maharehi Garden - 110094	Lac Twenty Six Thousand Three	Abadi of C block, gali no. 25, Bhajanpura, illaqa Shahdara,	₹ 56,00,000/- ₹ 5,60,000/-

- Last Date of Submission of Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC is 08.06.2023 between 10:00 AM to 4:00 PM, at the Regional Office F-8, Mahalaxmi Metro Tower, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad-201010. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.
- Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 09.06.2023 at the above-mentioned regional office address at 11:00 AM. The tender will be opened in the presence of the Authorized Officer.
- Date of Inspection of the Immovable Property is on 05.06.2023 between 11:00 AM to 5:00 PM.
- Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization. The notice is hereby given to the Borrower/s and Co-Borrower/s to remain present personally at the time of sale and they can bring
- 6. The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above-mentioned Regional office.

the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms

- The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the Authorized Officer reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary. The Property as mentioned will not be sold below Reserve Price. HHFL (HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED) is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as
- mentioned above. The Property shall be auctioned on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis'.
- 9. The Total Loan Outstanding amount is not the loan foreclosure amount. All other charges (if any) shall be calculated at the time of
- The Demand Draft should be made in favor of "HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED" payable at Ghaziabad. For further details, contact the Authorized Officer, at the abovementioned Office address.

financialexp.epapr.in

Mr. Ashutosh Kumar, Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED Dated: 28-04-2023, Place: New Delhi

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

UCO Bank

Zonal Office: Krishna Plaza, C-2/6, D-Block, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut- 250 001 (U.P.), E-AUCTION SALE NOTICE

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF ASSETS UNDER THE SECURITIZATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT. 2002. Date of E-Auction 24.05.2023 from 01:00 pm to 05:00 pm

Sale of Immovable Property/ies mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (No. 54 of 2002) whereas, the Authorized Officer of UCO BANK had taken Possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Sec 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 in the following loan accounts with right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS and AS IS WHAT IS BASIS & WHATEVER THERE IS BASIS & WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13 (4) of the said Act, proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property/ies. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website https://ibapi.in.

POSSESSION

No No	Branch /Name of Address Borrower/Guarantor	Details of Properties	POSSESSION NOTICE DATE & OUTSTANDING AMOUNT	/EMD 10% BID INCREMENT AMOUNT	Inspection of Property B) Date & Time of E-Auction	Authorised officer	Dranch Address																					
1	Branch: Shastrinagar	All that part and parcel of the residential property		Rs. 84,10,000/-																								
	Borrowers: M/s Riddhi	LOGO AND ALL OF A CALL STREET, STREET STREET, STREET STREET, S	27.10.2021	Rs. 8,41,000/-																								
	Enterprises. Prop. Sri Avdhesh Sharma S/o Prem Narayan Sharma, K-2/2282, Shastri Nagar, Meerut, U.P 250002. Guarantor: Smt. Vimla Sharma R/o K-2/2282, Shastri Nagar, Meerut UP- 250002.	Revenue Village Saraikazi, Pargana, Tehsil & District Meerut U.P. Area 204.48 sq mtr. (in the name of Smt. Vimla Sharma) registered in the office of sub-registrar Meerut at serial no. 3286 dated 13.04.2016. Bounded As: East- Plot No. 36. West- Remaining part of Plot no.	per Demand Notice: 45,80,612.48 plus interest &	Demand Notice: 45,80,612.48 plus interest &			"UCO Bank, IS-194, NEAR PVS MALL, SHASTRI NAGAR, MEERUT, UP. Phn.																					
2.	Branch: Shastrinagar Meerut	All that part & parcel of vacant land, measuring area	17.05.2019	Rs. 28,50,000/-	1		no.: 0121-2604080																					
		825 sq. mts of Khasra No 749 Mi situated at Village Alipur Jijmana, Near Rizwan Dairy, Hapur Road,	7,50,000,000	Rs. 2,85,000/-			email id: meshas @ucobank.co.in"																					
	Nagar, Pillokheri Road, Meerut- 250002. Guarantor: Mrs Ishrat Jahan W/o Mohd Chand R/o H.	Meerut, Uttar Pradesh in the name of Smt Ishrat W/o Mohd Chand duly registered in the office of Sub – Registrar, Meerut at Sr No. 5992, dated 31.08.2017.Boundaries- North: Land of Kallu South: Rasta 32 Feet wide East: Plot of Smt Ishrat West: Land of Kallu.	Demand Notice	Rs. 25,000/-																								
3	Branch: Meerut College, Meerut	All that part and parcel of the property in the name of	04.09,2021	Rs. 11,98,000/-																								
	W/o Dawan Kumar Aganual & Mr.	Smt Meenu Agarwal W/o Pawan Kumar Agarwal cons -isting of residential flat on ground floor area measuring	12.11.2021	Rs. 1,19,800/-	b) Auction On Co																							
	Pawan Kumar Agarwal S/o Shiv Kumar Agarwal R/o C-67, Saraswati Lok, Delhi Road Meerut-250002. Guarantor: Sanjay Kumar S/o Atar Singh, 846/4/4, Sector 1, Madhavpuram,	50.37 Sq. Mt., bearing private no. 4, constructed on part of plot no. C-79, C-80 & C-78/1, consisting of khasra no. 2113, 2114 & 294 situated at Pratap Vihar, Delhi Road, Meerut. Particulars of title Deed: Sr. No 8596 dated 02.08.2016 registered at Sub Registrar-III, Meerut Bounded As: North- Flat private no. 3 & common passage & stairs South- Property of Saraswati Lok Colony East-Plot no. C-81 West- Common Passage thereafter Rasta 12 feet wide	Amount due as per Demand Notice: Rs. 10,08,684.28 plus interest & other charges	Rs. 10,000/-		Ms Purnima Garg Contact: 7007625649																						
4	Branch: Meerut College, Meerut	All that Part and parcel of Residential Flat bearing	26.10.2021	Rs. 10,26,000/-	to 05:00 pm																							
	Borrowers: Mr. Anuj Bhardwaj	Pvt No 26, 3rd floor at Plot no. C-79, C-80 & C-78	01.01.2022	Rs. 1,02,600/-			"UCO Bank																					

No. 26, Plot no. C-79, C-80 & Pratap Vihar, Near Sarswati Lok, Delhi Road, Vill-C-78/1(part of) Pratap Vihar, Noor Nagar, Meerut (U.P.) area measuring 55.74 Delhi Road, Vill- Noor Nagar, Sq. Mt. Property Owner Shri Anuj Bhardwaj and Meerut-250001. Guarantor: Smt. Seema Sharma Title Deed No.-2236 dated Shri Jitendra Singh S/o Yashpal 30.03.2017 registered with Sub Registrar-III, other charges Meerut, Bounded As: North- Common wall Singh 1027/5, Sector 1, Madhavpuram, Meerut- 250002 thereafter Common Passage & Stairs, South-Common wall thereafter Flat No. 27, East-Common wall thereafter Plot No. C-80/1, West Common wall thereafter Common Passage & Stairs Branch: Meerut College, Meerut All that part and parcel of the property in the name 04.09.2021 Rs. 12,42,000/-Borrowers: Mr. Kuldeep Rastogi of Mr. Kuldeep Rastogi S/o Kishan Chand Rastogi 12.11.2021 Rs. 1,24,200/-S/o Kishan Chand Rastogi consisting of A residential flat area measuring Amount due as Address 1: R/O 333, Sector 6 55.74 Sq. Mtr. on 2nd floor, bearing private no 23 Jagriti Vihar, Garh Road, Meerut- constructed on part of plot no. C-79, C-80 & C-Demand Notice: 250004 Address 2: Flat No. 23, 78/1 consisting khasra no 2113, 2114 & 294, at Rs. 11,23,333.16 2nd floor, Plot no C-79, C-80 & Pratap Vihar, Vill- Noor nagar, Delhi Road, Meerut plus interest & C-78/1.Pratap Vhar. Vill- Noor - 250001. Particulars of title Deed Sr. No.-2292 other charges Nagar, Delhi Road, Meerut- dated 31.03.2017 registered at Sub Registrar- III. 250001. Guarantor: 1. Rahul Meerut.Bounded As:North- Common passage &

Address 1: H.no 385/2C-A, New and stairs and 12 ft wide road on ground Floor Dev Puri, Meerut-250002. West- Plot no C-78. Address 2: Flat no 20, 2nd floor, Plot no C-79, C-80 & C-78/1, Pratap Vihar, Vill-Noor Nagar, Delhi Road, Meerut - 250001 TERMS & CONDITIONS: 1. The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS BASIS". 2). For details of property, Term and Conditions interested bidders must visit

Dhawan S/o Yogesh Dhawan stair South- Flat no 22 East- common passage

Amount due as

New Delhi

Rs. 10,000/-

Rs. 10,000/-

Website https://ibapi.in. 2. Bidders have to visit website https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp for assistance in creating Login ID & Password, uploading details, submitting Bid Documents, Training/ Demonstration, Terms & Conditions for Online Inter-se Bidding etc., For any property related query you may contact the Authorised officer/Branch mentioned above 3. This Notice is also to be treated as 15 days Statutory Sale notice to borrowers and Guarantors Under Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement), Rules 2002. 4. Prospective buyers may visit Website https://ibapi.in for more details about the property. 6. Statutory dues/ liabilities etc. due to the Government/ Local Body are not known and shall be borne

Date: 28.04.2023

by the successful bidder, if any.

S/o Sh. Naipal Sharma R/o Flat /1 (part of) consisting khasra no 2113, 2114 & 294

Physical Add.: C-60, 3rd Floor, C-Block Community Centre Janak Cinema Complex, Janak Puri, New Delhi-110058. (b) Details of authorized representatives (b) Not Applicable are available at:

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of

Rajneesh Kumar Aggarwal, Interim Resolution Professiona Date: 29.04.2023 AFA No.: AA1/11483/02/271123/104928 | Valid Upto: 27-Nov-23 Place: New Delhi

DESCRIPTION OF IMMOVABLE / MOVABLE PROPERTY RESERVED PRICE a) Date & Time for

> "UCO Bank, Meerut College 81, P.L. Sharma Road, Meerut Uttar Pradesh -250001. email id: meecol @ucobank.co.in"

Auction Website https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp **Authorised Officer**

Sangrur

Others

In The Court Of Ms. Navjot Kaur

Myscon Digital Pvt Ltd And

Civil Judge (Junior Division),

Sukhmandar Singh

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No.: JDA/E.E.(PHE-II)/2023/D-144 Date: 27.04.2023

Corrigendum NIB No. EE (PHE-II)/12/2022-23

For the work of "Up-gradation of existing 30 MLD STP Gajadharpura from ASP to SBR Technology as per latest NGT norms including design construction, Supply, Installation, Testing and Commissioning (Civil, Mechanical, Electrical, Instrumentation, SCADA & Other necessary works) followed by 10 years O&M under JDA, Jaipur". NIB was issued vide No. JDA/EE(PHE-II)/2023/D-116 dated 31.03.2023 in which the different key dates are modified as under :-

S.No.	Particulars	As per Original NIB	As modified further	
1.	End date of downloading and submission of Bid	08.05.2023 06:00 PM	15.05.2023 06:00 PM	

This is for intimation and information to all the perspective bidders. Executive Engineer (PHE-II) Raj.Samwad/C/23/1545

No.

1 Total Income (1)

and Tax (1-2)

4 Exceptional Items

Method

(10+13)

Place: Delhi

Date: April 27, 2023

Total Expenses (2)

Particulars

Profit Before Exceptional Items

Share in Profit (Loss) in Associate

Entity accounted for Using Equity

6 Profit/ (Loss) Before Tax (5-6+7)

Profit/(Loss) from continuing

Profit/(Loss) for the period

Total Comprehensive Income for

Total Tax Expense (i+ii)

operations (8-9)

the period (14+15)

12 Paid up equity share capital

(Face value of the share)

Earnings per Equity Share

Auditor's Report thereon.

सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

कर्जदारों /बन्धककर्ता / गारंटरं /

ऋण खाता संख्या

श्री प्रवीण रस्तोगी और श्रीमती नेहा

प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स नेचुरल

श्रीमती मोनिका आनंद और श्री विवेक

रस्तोगी और मैसर्स प्रवीण अरोमा

हर्बल्स एंड सीडस

श्री आदित्य महाजन

आनंद

भौतिक कब्जा ले लिया है।

स्थानः दिल्ली

1. কুল আয

3. विशिष्ट मदी

कर से पर्व लाभ

दिनांकः 28.04.2023

विवरण

(कर, विक्षिप्ट एवं/अथवा अ-साधारण मदों से पूर्व)

(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)

4. कर से पश्चात अवधि के लिये शुद्ध लाभ

 अन्य व्यापक आय (कर से बाद) अवधि के लिये कुल स्थापक आय

आय प्रति शेयर (रु. में)

www.readwhere.com

इक्विटी शेयर पूंजी

क) मूल

ख) तरस

केनरा बैंक Canara Bank 📣 हापुड़| - मेलः cb18843@canarabank.com

शाखाः एसएसवी कॉलिज

FIGURES IN LAKHS EXCEPT SHARE DATA

Ended

Audited

24,550.15

23,832.65

717.50

717.50

660.48

660.48

660.48

4,570.33

0.14

by Order of Board

Vishesh Gupta

DIN: 00255689

Managing Director

For Integra Essentia Limited

अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत

परिसम्पत्तियों का विवरण

विला-वी-01, क्रिएशन्स विलास, सेक्टर

22, गांव मुल्लाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा-

अविभाजित आनुपातिक हिस्सा

आनुपातिक हिस्सा।

122001 के साथ निचली भूमि का

फ्लैट नंबर जी4, 701, 7वीं मंजिल, भारत

सिटी टॉवर जी-4, इंद्रप्रस्थ योजना,

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009 के

साथ निचली भूमि का अविभाजित

युनिट #ए3-605, 6वीं मंजिल, बीसीसी

भारत सिटी टावर ए3, इंद्रप्रस्थ योजना,

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201003 के

साथ निचली भूमि का अविभाजित

आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान

और भविष्य में होने वाला निर्माण।

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

57.03

Ended

31-Mar-22

Audited

6,860.82

6,751.98

108.84

108.84

108.83

108.83

108.83

1,089.97

0.01

Standalone Figures

Audited

5,018.65

4,964.30

54.35

54.35

54.34

54.34

54.34

0.05

1,089.97

0.01

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए) नियम 13(4) के तहत जैसा कि अघोहस्ताबर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन

अधिनियम, २००२ (२००२ का अधिनियम ५४) के अंतर्गत केमरा बैंक, एसएसवी कॉलिज शाखा का प्राधिकत अधिकारी होते हुए तथा घारा 13(4) सहपदित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.02.2023 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक कनक खिंह पुत्र अमीचंद, मकान नं. 506, छत्तजू पुरा मैन पोस्ट आफिस के पीछे, हापुड़, उत्तर - प्रदेश 245101, जमानतकर्ताः बबीता शर्मा पत्नी विनोद कुमार शर्मी, मकान नं. 387, महेरा पुरी (राजीव विहार) हापुड़, उत्तर-प्रदेश 245101, लोन खाता संख्याः 88437220004230 को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर धनराशि रू.- 1,80,585.81 (रूपये एक लाख अस्सी हजार पांच सौ पिवासी और इक्यासी पैसे केवल) तथा ब्याज व अन्य खर्चा आदि को अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी,वारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपटित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25 अप्रैल 2023 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उचारकर्ता/भारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी सीदा रूपये की राशि के लिए केनरा बैंक, एसएसवी कॉलिज शाखा के प्रभार धनराशि रु.- 1,87,023.70 (रुपये एक लाख सतासी इनार तेईस और सत्तर पैसे केवल) दिनांक 25.04.2023 को तथा ब्याज व अन्य खर्चा आदि को अदा करने को कहा गया था। सुरक्षित संपत्तियों को भूगाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अवल संपत्ति - एक मकान बीयरिंग मृंसिपिल नं. १३-३/५०६ (१), मोहल्ला छजनुपुरा अलियान वमरवाड़ा हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 80 वर्ग यार्डस, मालिक कनक सिंह पुत्र अमीचंद और चौहददी- उत्तर श्री जयप्रकाश की सम्पत्ति, दक्षिण में रोड़ 10 फिट चौड़ा, पूर्व में रोड़ 10 फिट चौड़ा, पश्चिम में शीला देवी की सम्पत्ति। दिनांकः २५.०४.२०२३ स्थानः एसएसवी कॉलिज हापुड प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

Quarter Ended

31-Mar-22 31-Mar-23 31-Dec-22 31-Mar-22 31-Mar-23

Unaudited

6,203.47

5,992.21

211.26

211.26

211.26

211.26

211.26

4,570.33

0.05

INTEGRA ESSENTIA LIMITED

Formerly known as Integra Garments & Textiles Limited

REGD OFF: 902, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash Place, New Delhi, North West, Delhi, -110034, India

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

Year

Ended

31-Mar-23

Audited

24,550.15

23,832.65

717.50

6.20

723.70

666.67

666.67

666.67

666.67

0.15

The Consolidated financial results of the company have been prepared in accordance with Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 (the

The above Audited Financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting at

the corporate office held on April 27, 2023. The Statutory Auditor of the Company has carried out an audit of the above Financial Results of the Company for the

quarter and financial year ended March 31, 2023 in term of the Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and have issued an unmodified Independent

कब्जा सूचना

चुंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूर्ननिर्माण और प्रतिभृति हित

अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए

अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में

दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भूगतान की तिथि और / या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग

बकाया राशि

₹. 10,66,04,133 /-

(30 अप्रैल 2022 को बकाया)

₹. 28,44,574 / -

(28 फरवरी 2022 को बकाया)

₹. 19,97,154 / -

(31 मई 2022 को बकाया)

*भुगतान और / या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट / आमंत्रित किया जाता है / जाते हैं।

57.03

Year

Ended

Audited

6,860.82

6,751.98

108.84

108.84

108.83

108.83

108.83

108.83

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067

दुरभाषः 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

मांग सूचना

की तिथि

10-ਸਤੀ

-2022

09-मार्च

-2022

30-जून

-2022

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार/कानुनी उत्तराधिकारी/कानुनी प्रतिनिधि/गारंटर बकाया राशि का भूगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए

विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों / गारंटरा और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि

एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत

उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 1 से 3 की अचल परिसम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों / गारंटरों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि

उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभृत परिसम्पत्तियों पर कोई भी लेनदेन

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों / गारंटरों का

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्ज़दारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020 प्राधिकृत अधिकारी

आरती सफेंक्टैन्ट्स लिमिटेड

CIN: L24100GJ2018PLC102891

पंजी. कार्या: पर्लाट नं. 801, 801/23, फेज-III, जी आई.डी.सी. इस्टेट, वापी-396195, जिला वलसाड, गुजरात

कॉर्यो. कार्या: युनिट 202, प्लॉट 71, उद्योग क्षेत्र, 2रा तल, मुलुण्ड-गोडेगॉय लिक रोड, मृलुण्ड (डब्ल्यू), मृम्बई-400080

Website: www.arti-surfactants.com; Email: info@aarti-surfactants.com;

31 मार्च. 2023 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिये अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

स्टैण्डएलॉन

31-मार्च-23 31-दिस.-22 31-मार्च-22 31-मार्च-23 31-मार्च-22 15,164.42

237.54

4.80

242.34

758.45

3.13

1. उपरोक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट

समाज चर्ष

550.05

4.80

554.85

758.45

7.25

7.25

1,780.66

1,271.05

1,277.09

794.14

16.64

16.48

6.00

समाप्त तिमाही

398.28

398.28

758.45

5.25

525

469.60

6.00

475.60

794.14

8.15

8.09

www.aarti-surfactants.com तथा क्रमशः बीएसई लिमिटेड तथा एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

3. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथा 27 अप्रैल, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।

प्रतिनिधियों / गारंटरों से अनुरोध है कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतियाँ प्राप्त कर लें।

कब्जा करने

की तिथि

27-04-.2023

(भौतिक)

25-04-.2023

(भौतिक)

25-04-2023

(भौतिक)

0.10

0.01

Audited

6,809.67

6,571.95

237.72

243.22

57.03

186.20

186.20

186.20

4,570.33

0.04

-5.50

Consolidated Figures

Audited

5,018.65

4,964.30

54.35

54.35

54.34

54.34

54.34

54.34

0.05

Act) read with the relevant rules thereunder and in terms of Kegulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Rec

0.01

Quarter Ended

31-Mar-23 | 31-Dec-22 | 31-Mar-22 |

Unaudited

6,203.47

5,992.21

211.26

12.55

223.81

223.81

223.81

223.81

223.81

0.05

Audited

6,809.67

6,571.95

237.72

(5.50)

(17.53)

225.69

57.03

168.66

168.66

168.66

168.66

CIN: L74110DL2007PLC396238

COURT NOTICE

plaintiffs

Junior Division Amritsar CNR NO: PBAS02-004548-2021 Next Date: 15.05.2023 M/s surekha knit fab, through its proprietor sh. Nirmal kumar surekha krishna lane,

erka bye pass, amritsar

. m/s sri vishu cottin centre, through its rop./ persoon incharge muthukumar eyanthi 105,lakshmi nagar, main road, ruppur 641602 2. m/s sri vishnu cottin centre, through its prop./persoon incharge muthukumar jeyamthi 105, akshmi nagar, main road tiruppur 541602 tamilnadu defendants Centre, Through Its Prop./ Persoon ncharge Muthukumar Jeyanthi 105, akshmi Nagar, Main Road, Tiruppur 641602 2. M/s Sri vishnu Cottin Centre. Through Its Prop./persoon Incharge

Notice To: 1. M/s Sri Vishu Cottin Muthukumar Jeyanthi 105, Lakshmi Nagar, Main Road Tiruppur 641602 n above titled petition the respondent ould not be served. It is ordered that the espondent should appear in person or brough counsel on 15.05.2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=amritsar Sh Insan Civil Judge Junior Division

नन्द किशोर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री लाखन लाला गुप्ता, निवासी फ्लैट नं. 102, प्रथम तल, प्लॉट एफ 144, खरारा नं. ११८६, शीर्यपुरम, शाहपुर बम्हेदा, जनपद-ग्राजियाबाद।

विषय : बैंक में बन्धक सम्पत्ति आवासीय फ्लैट नं० 102 प्रथम तल, प्लॉट एफ १४४, खसरा ११८६, शौर्यपुरम शाहपुर वम्हैदा, जनपद-गाजियाबाद पर माननीय न्यायालय अपर निलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में भौतिक कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

अवगत कराना है कि आपके द्वारा केनरा बैंक शासा मरादनगर, गानियाचाद से आवासीय फ्लेट नं. 102 प्रयम तल प्लॉट एफ 144 खरारा 1186 शीर्यपुरम शाहपुर बम्हैदा, गाजियाबाद को बैंक में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया गया था। आपके द्वारा समय से किस्तें जमा न करने के कारण ऋण खाता अनियमित (एन. पी. ए.) हो गया था जो आज तक भी अनियमित (एन, पी. ए.) चल रहा है जिसके सम्बन्ध में बैंक द्वारा आपको दिवांक 14. 01.2020 को मांग नोटिस अन्तर्गत घारा 13(2) सरफेरी एक्ट प्रेषित किया गया था। किन्तु आपके द्वारा ऋण धनराशि जमा नहीं करायी गयी। अब बैंक द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गाजियाबाद द्वारा वाद सं० 5642 / 2022 में दिनांक । 0.08.2022 में पारित आदेश के अबुपालन में बैंक में बन्धक सम्पत्ति आवासीय फ्लैट नं 0 । 0 2 प्रथम तल प्लॉट एक १४४ खरारा ११८६ शीर्यपुरम शाहपुर बम्हेटा, गाजिवाबाद पर भौतिक कब्जा लिया जाना है। अतः इस पत्र के माध्यम से आपसे अपेक्षा की जाती है कि

आप इस बोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर समस्त बकाया ऋण धनराशि जमा करा दें अन्वया वैक द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गाजियाबाद के आदेश दिनांकित 10.08.2022 के अनुपालन में बैंक के पाधिकत अधिकारी द्वारा आपकी उपरोक्त बन्धक सम्पत्ति पर भौतिक कन्ना प्राप्त कर लिया

दिनांक 20.04.2023 पाचिकृत अधिकारी, केनस बैंक।

Criminal Courts, Ludhiana n The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana

Date: 31-05-2023 ext date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Harender Singh

CNR NO: PBLD03-029573-2019 Publication Issued To: Harender Singh R/o House No 533 Mahabir Park Bahadurgarh District Jhajjar Rohtak 124103 (Haryana) Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 31-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and tetermined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.g

Criminal Courts, Ludhiana The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Date: 31-05-2023

ov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgment as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Vs. Krishan Jaswant Singh @ Krishan Saini CNR NO: PBLD03-029589-2019

Publication Issued To: Krishan Jaswant Singh @ Krishan Saini Prop M/s Krishan umar Jaswant Singh R/o House No 26/308 A Killa Mohalla Bahadurgarh District Jhajjar Bahad 124507 Haryana M/s Jaswant Kumar Jaswant Singh Through Its Prop Krishan Jaswant Singh Krishan Singh R/o House No 26/308 A Killa Mohalla Bahadurgarh District Jhajjar Bahad 124507 Haryana Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued gainst you with a direction that you should appear personally before this court on 31-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, n case of default on your part to appear as firected above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs =district_notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

जनसत्ता

क्लासीफाइड

PUBLIC NOTICE

that my client Sh. Yusuf Khan (aged 66 Yrs.) S/o Sh. Yasin Khan & Smt. Jamila (Aged 57 Yrs.) W/o Sh. Yusuf Khan, R/o RZ-81/350, street no.12, Jagdamba Vihar, West Sagar Pur, New Delhi-110046, have evicted their son i.e. Sh. Shahid Khan (aged 35 Yrs.), & daughter-in-law i.e., Mrs. Shazia (Aged 31 Yrs.), from all their selfearned/acquired movable and immovable properties and had disowned, dis-Inherited. debarred and severed all relations from them due to their ill treatment and quarrelsome-behaviour with family members, any one dealing with their son i.e., Sh. Shahio Khan (Aged 35 Yrs.), & daughterin-law i.e., Mrs. Shazia (Aged 31 Yrs.), will be doing so at his own risk and cost and Sh. Yusuf Khan (Aged 66 Yrs.) S/o Sh. Yasin Khan & Smt. Jamila (Aged 57 Yrs.) W/o Sh. Yusuf Khan, will not

PUBLIC NOTICE

Praveen Narayan (Advocate)

Enrolment No: D/3027/19

Supreme Court of India

be liable for the same.

It is hereby informed that my clier Aarti Khanna W/o Late Anil Khanna R/o F-807, First Floor, Sector-3, Vaishali, Ghaziabad, UP-201010, the owner of Property No. F-807 First Floor, Sector-3, Vaishali, Ghaziabad, UP-201010 and Shops No.5 & 6, at Tank. Road, Karol Bagh, Delhi-110005, and she has lost/misplaced all previous original Documents of the above said properties. My client has lodged FIR/NCR/LR relating to the same vide LR No.307708/2023. Dated: 04.04.2023, with the Police station Crime Branch, Delhi & LAR No.20230000197889, 04.04.2023, with the Police Unit State Crime Record Bureau. Lucknow. If anybody found said documents, please inform her at the above address or Contact her or Mobile No.9953139162, 9990864895. If any other claimant has any right in the aforesaid property, he/she should file an FIR & give intimation to my client within 15 days from the date of

> VISHAL SINGH Enrol No.- D-749/2014 Chamber No. 1224, 12th Floor, **Robini Court Complex** Rohini, Delhi-110085

issue of this notice.

PUBLIC NOTICE Public at large are hereby informed

that Ms. Manju Gupta D/o Late Sh. Shiv Prasad Gupta claims to be the absolute owner and in possession of Property No.88, area measuring 209.02 sq. meters, Block-D, Situated at Sector-6, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar U.P. (said property), on the basis of Mutation Letter dated 22.03.2023 issued by NOIDA Authority after the death of her father i.e. Late Sh. Shiv Prasad Gupta, who was the previous owner of said property.

Now, Sh. Nikhil Jain proposes to purchase the aforesaid property from Ms. Manju Gupta by availing the loan facility from our client ICICI Bank Ltd. against the security of aforesaid property.

Any person(s) claiming any rights, title or interests whatsoever, in and over the aforesaid property or any part thereof through sale, exchange, mortgage, gift, trust, inheritance, bequest, possession, lease, lien, easement or otherwise may lodge his claims/objections with documentary proof thereof, to the undersigned, within 10 days from the date of publication of this notice, as otherwise Sh. Nikhil Jain shall proceed towards the purchase & mortgage transactions with good faith, as if there are no subsisting claims/objections, and all such claims/objections not filed in time shall be deemed to have been waived & given up and shall not be binding on him and our client

ICICI Bank Ltd. Mohd. Raees (Advocate) D/4458/2015 R&P Legal Advocates & Legal Consultants I-1693, Chittaranjan Park. New Delhi -110019. Mobile No: 9654708907 Ph. 011-46063838, 41018803 Extn. 106

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana

Date: 31-05-2023 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on ttp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Rajveer Rana @ Rajvir Singh CNR NO: PBLD03-030554-2019 Publication Issued To: Rajveer Rana @ Rajvir Singh Address- R/o Ramesh Chand R/o H No 77, Vill Patla Sonipat

131001 (Harvana) Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named in the ordinary way of service, hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 31-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.

for details logon to: https://highcourtchd.g. ov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

COURT NOTICE In The Court Of Ms. Rasveen

Kaur Judicial Magistrate First Class-19, Jalandhar **IDFC**

First Bank limited Bharat Chugh

Next date: 29-05-2023 NACT/2076/2021 Publication Issued To: Bharat Chugh R/o Resident Of

In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 29-05-2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov. in/?trs=district_notice&district=Jalandhar

for details logon to: ict_notice&district=Sangrur

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त हरीश उर्फ रामा, पुत्र जगदीश, पता ई-3/241, सुल्तानपुरी, दिल्ली ने FIR 31/2019, U/s 308/34 IPC थाना सुल्तानपुरी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त हरीश उर्फ रामा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त हरीश उर्फ रामा फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि FIR 31/2019, U/s 308/34 IPC थाना सुल्तानपुरी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त हरीश उर्फ रामा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 07.06.2023 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार

> श्री बबरू भान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (उत्तर पश्चिम) कमरा नं. 304, तृतीय तल,

> > रोहिणी कोर्ट, नई दिल्ली

की तिथि

का समय

DP/4483/OD/2023

कैडलाक सं.

नाम

माध्यम

📵 पूर्वोत्तर रेलवे (ई-नीलामी)

भारत के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी द्वारा मंडल के 49 स्टेशनों पर Out of Home के अन्तर्गत बोर्ड एवं होर्डिंग के सोल राइट प्रदशनें हेतु एकल प्रणाली खुली ई-नीलामी के अन्तर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की जाती हैं। ई-नीलामी का विवरण निम्नवत है:-क्र स्टेशन का ई-नीलामी विद्यापन

बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 社 10:30 सुरेमनपुर चितबडागाँव प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्वलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 計 10:40 प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया बोर्ड एवं होर्डिंग 11.05.23 10:00 社 10:50 नन्दगंत ADVTO H23 बलिया रेलवे रेलवे क्रासिंग एरिया 11.05.23 10:00 社 11:00 क्रालिंग रसरा बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 से 11:10 बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 TH 11:20 सिसवा बाजा करीमुद्दीन प् बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 中 11:30 पडरीना बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्लेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 计 11:40 बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 前 11:50 खडडा प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 H 12:00 पिपराइच बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हेलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 H 12:10 सहतवार तमकहीरोड बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 刊 12:20 गाजीपुर सिटी प्लेटफॉम, वेटिंग हाल FOB, PRS एवं 11.05.23 10:00 社 12:30 सर्वलेटिंग एरिया (प्रथम जोन) बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 11.05.23 10:00 Ti 12:40 युसुफपुर बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफांम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया फफना 11.05.23 10:00 T 12:50 बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया महम्दाबाद 11.05.23 10:00 計 13:00 औडिहार बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल FOB, PRS एवं 12.05.23 10:00 刊 10:30 ADVTO सर्क्लेटिंग एरिया H23 बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया इन्दारा 12.05.23 10:00 T 10:40 बोर्ड एवं डोर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 12.05.23 10:00 th 10:50 दुल्लहपुर बोर्ड एवं होर्डिंग जिटफाँम, वेटिंग हाल एवं सर्कुलेटिंग एरिया किविहराप्र 12.05.23 10:00 th 11:00 बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया भाटपार रानी 12.05.23 10:00 前 11:10 बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्कलेटिंग एरिया लार रोड 12.05.23 10:00 中 11:20 झूंसी बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटर्फाम, वेटिंग हाल FOB एवं सर्क्लेटिंग एरिया 12.05.23 10.00 社 11:30 प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया सादात 12.05.23 10:00 社 11:40 प्लेटफॉम, वेटिंग हाल FOB एवं PRS सारनाथ 12.05.23 10:00 計 11:50 सर्कलेटिंग एरिया भटनी बोर्ड एवं होर्डिंग | फ्लेटफॉम, वेटिंग हाल FOB एवं PRS 12:05:23 10:00 th 12:00 सर्कलेटिंग एरिया चौरी चौरा बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल FOB एवं सर्कुलेटिंग 12.05.23 10:00 计 12:10 बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्कलेटिंग एरिया माधोसिंह 12.05.23 10:00 〒 12:20 12.05.23 | 10:00 से 12:30 पिपरीडीह बोर्ड एवं होर्डिंग | फ्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्कलेटिंग एरिया बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया ज्ञानपुर रोड 12.05.23 | 10:00 से 12:40 जखनिया बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 12.05.23 10:00 计 12:50 गोरी बाजार बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम: वेटिंग हाल एवं सर्कलेटिंग एरिया 12.05.23 10:00 Ti 13:00 जीरादेयी बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्लेटिंग एरिया 15.05.23 10:00 Ti 10:30 माधोसिंह माधोसिंह रेलवे क्रासिंग 15.05.23 10:00 H 10:40 रेलवे क्रासिंग **ADVTOO** मेरवा बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्क्लेटिंग एरिया 15.05.23 10.00 社 10:50 बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्वलेटिंग एरिया 15.05.23 10:00 社 11:00 कप्तानगंज बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया घ्यली 15.05.23 10:00 से 11:10 बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 15.05.23 | 10:00 से 11:20 मशरख सरायमीर प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्लेटिंग एरिया 15.05.23 | 10:00 से 11:30 दुदही बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया 15.05.23 10:00 H 11:40 बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम. वेटिंग हाल एवं सर्कलेटिंग एरिया मदौरा 15.05.23 10:00 H 11:50 चैनवा बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल FOB एवं सर्कुलेटिंग एरिया 15.05.23 10:00 前 12:00

बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया | 15.05.23 | 10:00 से 13:10 क्षमानत चारी (र. में) : कॉन्ट्रेक्ट की वार्षिक कीमत का 5% वेबसाईट पता : www.ireps.gov.in नोट-1 ई-नीलार्म IREPS (E-Auction leasing Portal) पर निर्घारित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन होगी। 2. ई-नीलामी (E-Auction) में भाग लेने के इच्छक बैंक द्वारा IREPS पोर्टल पर रु. 1000/-+GST (Non Refundable) ऑनलाईन जमा कर एव बार पंजीकरण कराना आवश्यक है एवं साथ ही उसके पास भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में चालु खाता हो जो IREPS से लिंक हो, अमानत राशि (EMD) का भूगतान / कटौती ऑनलाईन उसी खाते से होगी। 3. ई-नीलामी (E-Auction) र संबंधित नियम एवं शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी (REPS पोर्टल (www.ireps.gov.in) के E-Auction leasing Section में

बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल FOB, एवं PRS

बोर्ड एवं डोर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया

बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया

बोर्ड एवं होर्डिंग | प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया

बोर्ड एवं होर्डिंग प्लेटफॉम, वेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया

प्लेटफॉम, बेटिंग हाल एवं सर्व्हलेटिंग एरिया

सर्कलेटिंग एरिया

15.05.23 10:00 计 12:10

15.05.23 10:00 H 12:20

15.05.23 10:00 H 12:30

15.05.23 10:00 H 12:50

15.05.23 10:00 刊 13:00

मुजाघि / वा0-15 मण्डल रेल प्रबन्धक / वाणिज्य, वाराणसी यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो.-09794845955 पर SMS करें ट्रेनों में बीडी/सिगरेट न पियें

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No: JDA/EE&TA to Dir.Engg.-I/2023-24/D-48

NOTICE INVITING BID

राजापदरी

हडिया खास

दुरोधा

एकमा

हध्आ

खोरासन रोड

NIB No.: EE & TA to Dir.Engg.-I/04/2023-24 Bids are invited for works given below in various zones as per details given :-

S. Cost of Last Date UBN No. Nature of Work Zone No. Work (Lacs) Renewal of EE-10 JDA2324WSOB00079 235.00 18.05.2023 Road Renewal of 2. JDA2324WSOB00083 272.71 EE-2A 18.05.2023 Road

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

> Executive Engineer & TA to Dir.Engg-I

Raj.Samwad/C/23/1543

स्थान: मुम्बई तिथि: 27 अप्रैल, 2023

2. जहाँ भी जरूरी हुआ, पूर्व तिमाही के आँकड़े पुनर्समुंहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किथे गये हैं।

कते. आसी सफॅक्टैन्टस लिमिटेड निखिल परिमल देसाई प्रबंध निदेशक

(शेयर हैटा छोड़कर रु. लाख में)

समाप्त वर्ष

31-मार्च-23 31-मार्च-22

1,780.06

1,270.45

1,276.45

794.14

18.64

16.47

6.00

57,580.75

549.48

4.80

554.28

758.45

7.24

7.24

समेकित

15,164,42

237.20

4.80

242.00

758.45

3.13

3.13

समाप्त तिमाही

31-मार्च-23 31-दिस-22 31-मार्च-22

546.01

398.28

398.28

758.45

5.25

5.25

15,792.83

615.41

469.32

6.00


475.32

794.14

6.09



DIN: 01660649



JMIC-19 Jalandhar

Central Delhi, New Delhi-110060

ccCNR NO: PBSG02-000566-2022 Next Date: 05-05-2023 CNR NO: PBJL03-007403-2021 Publication Issued To: Myscon Digital Pvt Ltd And Others: Through Its Managing Director House No 1411 Ground Floor Nicloso N Road Kashmiri Gate Metro North East Delhi (s)/ respondent(s) could not be

In above titled case, the defendant served. It is ordered that defendant (s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 05-05-2023 at 10:00 a.m. https://highcourtchd.gov.in/?trs=dist

Civil Judge (Junior Division)

4c/19 Old Rajinder Nagar